

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 318
No. 402]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939	[N.C.T.D. No. 318

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भाहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली: 8 नवम्बर, 2017

सं0फा0 4(1)/आरआर/एलबी/2013/सीडी सं0 000199626/7635-42.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 98 तथा 480 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या फा0 4(1)/आरआर/एलबी/2013/3870-75 के द्वारा अधिसूचित उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम, 2014 में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद हेतु भर्ती विनियमों में आगे संभाोधन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक, (सं)ोधन के पद हेतु भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
- ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगम, 2014 में सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक के पद हेतु भर्ती विनियमों में, नियम 2 में “पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान” भाबों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” भाबों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- उक्त विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में, कॉलम 4 में कॉलम भीर्शक तथा इससे संबंधित प्रविश्टियों के स्थान पर निम्नलिखित कॉलम भीर्शक तथा प्रविश्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

“

वेतन मैट्रिक्स में स्तर
4
स्तर 4 (25500-81100 /—रुपये)

”

- (ख) कॉलम 11 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :- “मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक डिप्लोमा रखने वाले जनस्वास्थ्य संवर्ग में 11 वर्षों की नियमित सेवा सहित पे मैट्रिक्स (18000-56900/-रुपये) के स्तर-1 के ग्रेड में से पदोन्नति।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

पवन चोपड़ा, उप निदेशाक, स्थानीय निकाय,

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 8th November, 2017

No.F.4(1)/RR/LB/2013/CD-000199626/7635-42—In exercise of the powers conferred by sections 98 and 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following regulations further to amend the recruitment regulations for the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations, 2014 notified *vide* No. F.4(1)/RR/LB/2013/3870-75 dated Delhi, the 14th August 2014, namely: —

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called **Recruitment Regulations for the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations (Amendment), 2017.**
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. In the **Recruitment Regulations for the post of Assistant Public Health Inspector in North, South and East Delhi Municipal Corporations, 2014**, in rule 2 for the words “Pay Band and Grade pay/scale of Pay”, the words “Level in Pay Matrix” shall be substituted.
3. (a) In the Schedule annexed to the said Regulations, in column 4 for column heading and the entries relating thereto, the following columns heading and entries shall be substituted, namely :-

Level in Pay Matrix
4
Level 4 (Rs 25500-81100).

(b) In column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted namely:- “**Promotion from the grade in Level-1 of Pay Matrix (Rs.18000-56900) with eleven years of regular service in Public Health Cadre having, Sanitary Inspector Diploma from recognized Institute**”.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN CHOPRA, Dy. Director (Local Bodies)